

तुरंत रिलीज के लिए

डाउनटाउन ब्रैम्पटन में जल्द आ रहा है

इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। अधिक चौड़े साइडवॉक्स। विस्तार की गई पब्लिक जगहें।

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 फरवरी, 2022) – इस महीने रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के द्वारा निर्माण शुरू करते हुए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) का कायापलट हो रहा है। क्षेत्र में वाटरमेन और सेनिटरी सीवरों को बदला जाएगा, उसके बाद साइडवॉक्स को बदलकर उन्हें चौड़ा किया जाएगा और सड़कों की मुरम्मत करके, उनकी सतह ठीक की जाएगी।

यदि मौसम ठीक रहा और कोविड-19 (COVID-19) महामारी पर विचार करके, इसका निर्माण जनवरी के अंत तक शुरू करना तय किया गया है। यह 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। रीजन ऑफ पील ने निर्माण के लिए साधारण स्टेज संबंधी योजनाएं साझा की हैं। निवासी और कारोबारी, [यहां \(here\)](#) जानकारी की समीक्षा और सवाल या टिप्पणियां जमा कर सकते हैं।

क्वीन स्ट्रीट (Queen Street) पर निर्माण के दौरान, ट्रैफिक की एक लेन को प्रत्येक दिशा में व्यवस्थित किया जाएगा। मेन स्ट्रीट (Main Street) पर निर्माण के दौरान, ट्रैफिक की एक दिशा को, केवल एक दिशा में व्यवस्थित किया जाएगा। पैदल यात्रियों की पहुंच को साधारण तौर पर, सभी कारोबारों तक व्यवस्थित किया जाएगा और साइडवॉक्स खुली रहेंगी। बुलेवार्ड्स के अंदर छोटी-अवधि का काम होगा, इसके बाद कर्ब्स और साइडवॉक्स की पूरी रिप्लेसमेंट होगी, उस समय पैदल यात्रियों को स्ट्रीट के दूसरी तरफ का रास्ता दिया जाएगा।

यह विस्तार सिटी के इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान (Integrated Downtown Plan) को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ब्रैम्पटन की कई जारी पहलकदमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मार्गदर्शन करेगा और वृद्धि तथा निवेश को प्रेरित करेगा।

अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

डाउनटाउन स्ट्रीटस्केपिंग

रीजन (Region) के डाउनटाउन इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के साथ पूरे सहयोग में, सिटी स्ट्रीटस्केपिंग पहलकदमियों को आगे बढ़ाएगी, जिनमें, मौजूदा साइडवॉक्स को पत्थर के पेवर्स से बदलना और क्वीन (Queen) और मेन स्ट्रीट्स (Main Streets) के दोनों तरफ चौड़े फुटपाथों से सड़कों को पुनः-सर्फेस करना शामिल है। लगभग 16.6 मिलियन डॉलर का यह निवेश, कमर्शियल गतिविधि, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए बढ़िया किस्म के शहरी स्थान बनाने में सहायता करेगा। साथ ही, यह एटोबीको (Etobicoke) और फ्लैचर्स क्रीक्स (Fletchers Creeks) के बीच में एक्टिव लिंक बनाएगा और डाउनटाउन कोर में बढ़ा हुआ पैदल यात्री क्षेत्र बनाएगा।

डाउनटाउन ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट्स सेंटर

[डाउनटाउन ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट्स सेंटर \(Downtown Brampton Projects Centre\)](#) (डी.बी.पी.सी.) (DBPC) अब वर्चुअल (आभासी) तौर पर खुला है। सिटी का स्टाफ, डाउनटाउन के कारोबारियों और निवासियों की सहायता करने तथा डाउनटाउन को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए प्रोग्राम और पहलकदमियां प्रदान करना जारी रखने के लिए तैयार है। निर्माण के दौरान, पील रीजन (Peel Region) का स्टाफ भी उपलब्ध रहेगा।

जिन प्रोजेक्ट्स की हिमायत, डी.बी.पी.सी. (DBPC) के द्वारा की जाएगी, उनमें शामिल हैं, रीजन का वाटरमेन और सेनिटरी सीवर रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट और [माई मेन स्ट्रीट प्रोग्राम \(My Main Street program\)](#)। डाउनटाउन कोऑर्डिनेटर (Downtown Coordinator), छोटे स्केल के प्रोजेक्ट लागू करने और सवालों को सिटी के सही डिपार्टमेंट्स में भेजने में, लोकल कारोबारियों, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) और निर्वाचित अधिकारियों की सहायता करेगा।

डी.बी.पी.सी. के बारे में अधिक जानकारी, www.brampton.ca/downtownbrampton से प्राप्त करें।

स्पोर्ट लोकल

कोविड-19 महामारी ने ब्रैम्पटन की डाउनटाउन बिजनेस कम्युनिटी पर बहुत पड़ा असर डाला है और सिटी, रुकावटों को कम करने और उनकी आर्थिक बहाली में उनकी हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह लगातार, पब्लिक जगहों का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों में निवेश कर रही है।

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय के दौरान, डाउनटाउन की दुकानों पर जाना जारी रखें। आप ब्रैम्पटन के छोटे कारोबारियों की पूरी सूची, [स्पोर्ट लोकल ब्रैम्पटन की वेबसाइट \(Support Local Brampton website\)](#) पर प्राप्त कर सकते हैं।

चूंकि निर्माण कार्य जारी है, इसलिए अपनी पसंदीदा दुकानों पर जाने के लिए उपलब्ध पार्किंग विकल्पों की पूरी सूची के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

इंटीग्रेटिड डाउनटाउन प्लान के बारे में

डाउनटाउन ब्रैम्पटन की कई जारी पहलकदमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए – इंटीग्रेटिड डाउनटाउन प्लान (आई.डी.पी.) (IDP) काम करने के लिए एक रोडमैप है। संभावना है कि यह, 2051 तक भविष्य की वृद्धि और कार्यनीति संबंधी निवेश में मार्गदर्शन करेगा।

आई.डी.पी. (IDP) के मार्गदर्शन वाले सिद्धांत, भागीदारी, इनोवेशन और स्थिरता हैं। यह ब्रैम्पटन को महत्वपूर्ण आर्थिक संचालक, रीजनल सांस्कृतिक हब और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) की स्थिति में लाते हुए – इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, शहरी डिज़ाइन, ज़मीन के प्रयोग और प्रोग्रामिंग दखलों को कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा।

आई.डी.पी. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/IDP पर जाएं।

हवाले

“हमारे साझेदारों के साथ मिलकर, हम डाउनटाउन ब्रैम्पटन को पुनः शक्तिशाली बनाने और इसकी क्षमता का फायदा लेने तथा अच्छी किस्म की शहरी जगहें और हमारे डाउनटाउन कोर में अधिक चौड़ा पैदल यात्री क्षेत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़े समय के लिए निर्माण विघ्न पैदा कर सकता है, लेकिन अंत में, यह प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन को आर्थिक संचालक, रीजनल सांस्कृतिक हब और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर की स्थिति में लाएगा। हम हमारे निवासियों और कारोबारियों के धैर्य की सराहना करते हैं और स्पोर्ट लोकल ब्रैम्पटन के लिए आगे आने हेतु उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि यह काम हो रहा है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन का रोमांचक कायापलट हो रहा है। रीजन की तरफ से निर्माण का यह पहला कदम, हमारे डाउनटाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की भलाई के लिए जरूरी है। यह हमारे सिटी के कोर का विस्तार करने के लिए, स्ट्रीटस्केपिंग तथा अन्य पहलकदमियों को जारी रखने के लिए, हमारे लिए आधार बनेगा। हम उन फायदों को देखने के लिए उत्साहित हैं, जो डाउनटाउन का योजनाबद्ध कार्य, हमारे डाउनटाउन, निवासियों और लोकल कारोबारियों के लिए लेकर आएगा।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे डाउनटाउन के कारोबारियों पर कोविड-19 महामारी और लगातार दुकानें बंद होने का बहुत प्रभाव हुआ है। हम आर्थिक बहाली के सफर पर उनकी हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारे निवासियों को सलाह देता हूँ कि, हमारे कारोबारियों पर निर्माण कार्य के प्रभाव को कम करने के लिए, लोकल दुकानों से खरीदारी करें, लोकल रेस्टोरेंट्स से खाएं और इनकी पड़ताल करें, जब हम डाउनटाउन को पुनः शक्तिशाली बना रहे हैं। इस समय हमारी कई डाउनटाउन पहलकदमियों के साथ होने वाला रीजन का कार्य, जोशीला और मज़बूत डाउनटाउन बनाने में मदद करेगा, जिसका सबको फायदा होगा और सभी इसका आनंद लेंगे।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी में, हम हमारे डाउनटाउन का विस्तार करने और हमारे निवासियों के रहने, काम करने और खेलने के लिए संपूर्ण कम्युनिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पब्लिक जगहों में सुधार करके, हम नौकरियां पैदा करेंगे, आर्थिक बहाली की हिमायत करेंगे और हमारे निवासियों की जीवन क्वालिटी में सुधार करेंगे। हम इस जरूरी और रोमांचक कार्य को पूरा करने के लिए, रीजन के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारे साझेदारों के साथ मिलकर हम, हमारी सिटी के कोर में पब्लिक जगहों का विस्तार करते हुए, हमारे डाउनटाउन के कारोबारियों की जारी बहाली की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं निवासियों को याद दिलाती हूँ कि इन सुधारों का काम होने के समय, हमारी लोकल दुकानें, रेस्टोरेंट्स और सेवाएं, कारोबार के लिए खुली हैं! हम जानते हैं कि यह रोमांचक बदलाव, बहुत ही बहुमूल्य हैं!”

- *सूजी गॉडफ्रॉय (Suzy Godefroy), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.)*

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. की तरफ से, हम बेहद उत्साहित हैं कि क्षेत्र में कायापलट हो रहा है और उन कई फायदों को देखने के लिए उत्साहित हैं, जो यह, हमारे लोकल कारोबारियों और ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए लेकर आएगा। चूंकि हम लगातार कोविड-19 महामारी के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी कम्युनिटी से अनुरोध करते हैं कि निर्माण कार्य होने के समय, लोकल दुकानों से खरीदारी करें, लोकल रेस्टोरेंट्स से खाएं और इनकी पड़ताल करें। डाउनटाउन में बहुत सारे सुविधाजनक पार्किंग विकल्प हैं, जो सिटी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और हमारे कारोबार खुले हैं और आपकी सेवा के लिए तैयार हैं!”

- *कैरी पर्सिवल (Carrie Percival), चेयर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.)*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca